



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

19 ज्येष्ठ 1931 (श0)  
(सं0 पटना 254) पटना, मंगलवार, 9 जून 2009

---

खान एवं भूतत्व विभाग

-----  
अधिसूचना

27 मई 2009

सं0 2/एम.एम.(स्टो.)-10/2007-874/एम.—बिहार खनिज (अवैध खनन्, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2003 के नियम 7(1)(ड.) के अन्तर्गत क़शर के उपयोग में लाये जाने वाले पत्थर के स्टॉकिस्ट अनुज्ञप्ति के संख्या राज्य सरकार द्वारा किशनगंज जिले को आवंटित करने का निर्णय लिया है। निर्धारित संख्या निम्न प्रकार होगी—

जिला का नाम	पूर्व में अधिसूचित पत्थर स्टॉकिस्ट अनुज्ञप्ति की संख्या	20 प्रतिशत आवंटित किये जाने वाले जिला का नाम	20 प्रतिशत पत्थर के तहत् कॉलम 3 के जिले को आवंटित स्टॉकिस्ट अनुज्ञप्ति की संख्या	वर्तमान में 20 प्रतिशत आवंटित किये जाने के उपरांत कॉलम-1 के जिले के लिये अनुमान्य पत्थर स्टॉकिस्ट अनुज्ञप्ति की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
नालन्दा	26	किशनगंज	1	25	शेखपुरा जिला में 283 अनुज्ञप्ति की स्वीकृति है जिसमें विभागीय अधिसूचना सं0-1705/एम0 दि0 31 जुलाई 2003 द्वारा नालन्दा में 56 अनुज्ञप्ति आवंटित की गई है। वर्तमान में नालन्दा जिला में अनुज्ञप्ति की आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है। फलतः इसी आवंटित अनुज्ञप्ति में से अधिसूचना सं0-775/एम. दि0 19 मार्च 2006 से सात अनुज्ञप्ति एवं अधिसूचना सं0 330/एम. दि. 12 फरवरी 2007 से 21 अनुज्ञप्ति सीतामढ़ी जिले को तथा अधिसूचना संख्या- 1916/एम. दि. 21 अगस्त 2007 के द्वारा दो अनुज्ञप्ति पूर्णियाँ जिले को दी गई है। पुनः एक अनुज्ञप्ति किशनगंज जिले को आवंटित की जा रही है।

2. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचनाएं इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

3. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या स.सं.-2/एम.एम.(स्टो.)-10/2007(24791एम.) दि. 08 दिसम्बर 2008 को रद्द करते हुये यह प्रतिस्थानी अधिसूचना निर्गत की जा रही है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विजय कुमार सिंह,  
सरकार के उप सचिव ।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 254-571+500-डी0टी0पी0।  
**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**